



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 543] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1976/अग्रहायण 27, 1898

No. 543] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1976/AGRAHAYANA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## DEPARTMENT OF SUPPLY

### ORDER

New Delhi, the 18th December 1976

S.O. 805(E).—Whereas the Central Government entered into a contract with Messrs Shalimar Works Limited, 4-Garden Reach Road, Kidderpore, Calcutta-700023 for the supply of two fishing trawlers of 17.5 metres length,

And whereas the said Shalimar Works has supplied one trawler and partially built the 2nd trawler and thereafter stopped the construction of the said trawler on the ground that they are prevented to complete the said trawler due to lock out;

And whereas the Central Government has cancelled on 27th October, 1976 the contract at the risk and cost of the said Shalimar Works;

And whereas the said partially built trawler and the machinery and materials procured for the construction are lying in the premises of the said Shalimar Works,

And whereas the supply of the said trawler is essential to the life of the community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of the rule 114 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby directs that—

(a) the said Shalimar Works shall allow the Central Government or the person authorised by that Government (hereafter in this order referred

to as the authorised person) to inspect the premises of the said Shalimar Works for preparing an inventory list of the partially built trawler and the machinery and materials which are procured for the construction of said trawler;

- (b) the said Shalimar Works shall on demand hand over to the Central Government or to the authorised person the properties mentioned in the inventory list prepared under clause (a);
- (c) where the Central Government or the authorised person is of opinion that the properties mentioned in the inventory list cannot be removed from the premises of the said Shalimar Works without making changes in its present conditions, the said Shalimar Works shall, for a period of one year from the date of this order or within such further period not exceeding three years as may be specified by the Central Government, allow and give all facilities to that Government or the authorised person, as the case may be, for completing the construction of the said trawler in the said premises.

[No. SV-3/220/73/996/81]

R. TIRUMALAI, Secy.

### पूर्ति विभाग

#### आदेश

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1976

**का० आ० 805 (प्र).—**चूंकि, केन्द्रीय सरकार ने 17.5 मीटर लम्बे दो फिशिंग ट्रोलरों की सप्लाय के लिए मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड, 4-गार्डन रीच रोड, किद्दरपुर, कलकत्ता-23 से ठेका किया था ;

और चूंकि उक्त शालीमार वर्क्स ने एक ट्रोलर की सप्लाय कर दी है और दूसरे ट्रोलर को आंशिक रूप से निर्मित किया गया है और उसके बाद उक्त ट्रोलर के निर्माण कार्य को इस आधार पर रोक दिया है कि तालाबन्दी के कारण उन्हें उक्त ट्रोलर को पूरा करने से निव्वारित किया गया है ;

और चूंकि केन्द्रीय सरकार ने उक्त शालीमार वर्क्स के जोखिम तथा लागत पर ठेके को 27-10-76 को रद्द कर दिया है ;

और चूंकि उक्त आंशिक रूप से निर्मित ट्रोलर तथा इसके निर्माण के लिए अधिप्राप्त मशीनरी तथा सामान उक्त शालीमार वर्क्स के ग्रहाते में पड़े हुए हैं ;

और चूंकि उक्त ट्रोलर की सप्लाय राष्ट्र के जीवन के लिए अनिवार्य है ;

इसलिए अब भारत के रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 111 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निवेश देती है कि :—

- (क) उक्त शालीमार वर्क्स, केन्द्रीय सरकार अथवा उक्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को (इसके बाद इस आदेश में इसे प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) आंशिक रूप से निर्मित ट्रोलर तथा उस ट्रोलर के निर्माण के लिए अधिप्राप्त मशीनरी और सामान की सूची तैयार करने के लिए उक्त शालीमार वर्क्स के ग्रहाते का निरीक्षण करने की अनुमति देगा ;

- (ख) उक्त शालीमार बर्कस, मांगे जाने पर, केन्द्रीय सरकार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को खण्ड (क) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में उल्लिखित सामग्री सौंप देगा ;
- (ग) जहाँ केन्द्रीय सरकार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति की यह राय हो कि सूची में उल्लिखित सामग्री को, उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन किये बिना, उक्त शालीमार बर्कस के अहाते से हटाया नहीं जा सकता, वहाँ इस आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा तीन वर्ष से अनधिक ऐसी आगामी अवधि के भीतर, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट हो जाएगी, उक्त अहाते में ही उक्त टूलर के निर्माण को पूरा करने के लिए उक्त शालीमार बर्कस उक्त सरकार को अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को, यथास्थिति, अनुमति देगा और सभी सुविधाएं प्रदान करेगा ।

[सं० एस बी-3/220/73/996/81]

आर० तिरुमलै, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

